



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 आषाढ़ 1944 (श0)  
(सं0 पटना 414) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2022

---

विधि विभाग

अधिसूचना

30 जून 2022

एस0ओ0 103, दिनांक 30 जून 2022—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उपधारा-(1) एवं धारा-14 की उपधारा (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, वर्ष 1974) की धारा-11 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों का उपान्तरण करते हुए बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं कि:-

- (क) कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमंडल में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] का न्यायालय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय, मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के दो न्यायालय स्थापित किये जायेंगे;
- (ख) मोहनियाँ अनुमंडल के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] के न्यायालय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के न्यायालय, मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के दो न्यायालयों की अधिकारिता कैमूर जिले के मोहनियाँ अनुमंडल की सम्पूर्ण स्थानीय सीमायें रहेंगी;
- (ग) मोहनियाँ अनुमंडल के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] का न्यायालय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय, मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] का न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के दो न्यायालय मोहनियाँ में बैठेंगे;

- (घ) कैमूर जिले के मोहनियाँ अनुमंडल में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)] के न्यायालय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के न्यायालय, मुंसिफ [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारियों [असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)] के न्यायालयों की स्थापना के फलस्वरूप भभुआ (कैमूर) के इन न्यायालयों की अधिकारिता की सीमाओं के अंतर्गत कैमूर जिले के मोहनियाँ अनुमंडल की स्थानीय सीमाएँ नहीं रहेंगी।
- (ङ) यह अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।

(सं0सं0-ए/एक्ट-13/2009-5858/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रुद्र प्रकाश मिश्र,

सरकार के सचिव ।

30 जून 2022

एस0ओ0 103 दिनांक 30 जून 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए/एक्ट-13/2009-5858/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रुद्र प्रकाश मिश्र,

सरकार के सचिव ।

### *The 30th June 2022*

S.O. 103, dated 30th June 2022—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and Sub-section (1) of section 11 of The code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and in modification of the previous notifications and orders issued on the subject the Governor of Bihar is pleased to direct that:-

- (a) The Court of Additional Chief Judicial Magistrate [Civil Judge (Senior Division)], the Court of Subdivisional Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)], the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] and two Courts of Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)] of Mohania Sub-division in the district of Kaimur shall be established at Mohania;
- (b) The Jurisdiction of the court of Additional Chief Judicial Magistrate [Civil Judge (Senior Division)], the Court of Subdivisional Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)], the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] and two Courts of Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)] of Mohania sub-division shall be the entire local limits of the Sub-division of Mohania in the District of Kaimur;
- (c) The Court of Additional Chief Judicial Magistrate [Civil Judge (Senior Division)], the Court of Subdivisional Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)], the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] and two Courts of Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)] of Mohania sub-division shall hold their sittings at Mohania;

- (d) Consequent upon the establishment of the Court of Additional Chief Judicial Magistrate [Civil Judge (Senior Division)], the Court of Subdivisional Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)], the Court of Munsif [Civil Judge (Junior Division)] and the Courts of Judicial Magistrate [Civil Judge (Junior Division)] in the sub division of Mohania within the District of Kaimur, the jurisdiction of these court of Mohania shall be excluded from the local limits of these Court of Kaimur at Bhabhua.
- (e) This Notification shall come into force with effect from the 2<sup>nd</sup> July, 2022.

**(File No.-A/Act-13/2009-5858/J.)**

By Order of the Governor of Bihar,

**Rudra Prakash Mishra,**

*Secretary to the Government of Bihar.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 414-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>